



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 30) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जनवरी 2014

सं0 4/पी0 3-10-11/2010 गृ0आ0-1811
गृह विभाग

संकल्प

6 मार्च 2013

विषय :- बिहार पुलिस के सुदृढीकरण हेतु जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर कुल पाँच वर्षों में आवश्यकता आधारित विभिन्न श्रेणी के पुलिसकर्मियों के कुल- 43761 पदों के सृजन की स्वीकृति ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2009 को दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या एवं पुलिस बल का अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर 145 बताया गया है। बिहार राज्य पुलिस में सभी कोटि के पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या-85164 है, जिसके अनुसार बिहार राज्य में प्रतिलाख जनसंख्या पर पुलिस बल की औसत संख्या वर्ष-2009 में 80 थी । वर्तमान समय में 88 है ।

2. राज्य में 40 से 33 जिले उग्रवाद की समस्यायें से ग्रसित है। तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते हुए विधि व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति की निरंतर गंभीर होती जा रही स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के निमित्त भिन्न श्रेणी के पुलिस बल के सृजित पदों में वृद्धि किया जाना सरकार के विचारधिन था।

3. सरकार द्वारा निम्नांकित 43761 पदों को उनके निर्धारित पे-बैंड तथा ग्रेड-पे में सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार पुलिस में सृजित होने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पदों की विवरणी

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पे0 बैंड	ग्रेड पे0
1.	पुलिस उपाधीक्षक	154	9300-34800	5400
2.	पुलिस निरीक्षक	533	9300-34800	4600
3.	परिचारी प्रवर	51	9300-34800	4600
4.	प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक	103	9300-34800	4600
5.	परिचारी	240	9300-34800	4200
6.	अवर निरीक्षक	4659	9300-34800	4200
7.	प्रारक्ष अवर निरीक्षक	324	9300-34800	4200

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पे0 बैण्ड	ग्रेड पे0
8.	सहा0 अवर निरीक्षक	6457	5200—20200	2400
9.	हवलदार	5191	5200—20200	2000
10.	सिपाही	26049	5200—20200	1900
कुल पद		43761		

4. उपर्युक्त 43761 पदों पर नियुक्ति निम्नांकित कार्य योजना एवं शर्तों के अधीन की जायेगी।

नियुक्ति की कार्य योजना

क्रमांक	पद का नाम	नियुक्ति के कुल पद	सीधे भर्ती से नियुक्ति के पद	वर्ष (2012—13)	वर्ष (2013—14)	वर्ष (2014—15)	वर्ष (2015—16)	वर्ष (2016—17)
1	उपाधीक्षक	154	77	15	15	15	15	17
2	अवर निरीक्षक	4659	2330	466	466	466	466	466
3	परिचारी	240	240	48	48	48	48	48
4	सिपाही	26049	26049	5209	5209	5209	5209	5213
	कुल	31102	28696	5738	5738	5738	5738	5744

जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित शेष पदों को प्रोन्नति से भरा जायेगा।

5. पिछले एक वर्ष में सृजित विभिन्न कोटि के पद इसी संख्या के अधीन सृजित माने जायेंगे।

6. वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व मुख्यमंत्री का निर्णय प्राप्त किया जायेगा।

7. उपर्युक्त प्रस्तावित पदों के सृजन पर आकलित आर्वतक वार्षिक व्यय—19,19,85,95,840/— (उनीस अरब उनीस करोड़ पचासी लाख पनचानवें हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र है। इस आर्वतक व्यय का वहन बजट शीर्ष—2055—पुलिस—लघु शीर्ष—109 जिला पुलिस कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड संख्या—एन0—2055001090001 में विकलनीय होगा। उक्त प्रस्तावित 43761 पद का सृजन अगले पाँच वर्षों तक हर वर्ष 8752 एवं अंतिम वर्ष 8753 भिन्न श्रेणी के पद जिसपर वार्षिक व्यय 3,83,97,19,168 (तीन अरब तिरासी करोड़ सनतानवें लाख उनीस हजार एक सौ अड़सठ) रुपये मात्र व्यय होगा।

8. इस स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

9. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 30-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>